



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 953 राँची, गुरुवार,

4 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-511/2014-2482 (HRMS)-- श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-738A/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के विरुद्ध परिवादी श्री सुदामा प्रसाद, बगोदर, गिरिडीह द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें घूस लेने संबंधी आरोप लगाया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-9036, दिनांक 8 सितम्बर, 2014 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से परिवाद पत्र में निहित आरोपों पर जाँच प्रतिवेदन/प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1325/गो०, दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री मंडल के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिस पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु अप्राप्त रहा।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-135, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा श्री मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को गलत, तथ्यहीन, निराधार एवं बिना साक्ष्य के बताते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा किया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह से विभागीय पत्रांक-2758, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा श्री मंडल को आरोप मुक्त करने का आधार स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त गिरिडीह के

पत्रांक-927/गो०, दिनांक 11 जून, 2016 द्वारा पुनः मंतव्य उपलब्ध कराते हुए श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पर आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5345, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119, दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके समीक्षोपरांत श्री मंडल को निन्दन की सजा अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-11395, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मण्डल के पत्रांक-838, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है।

श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, पूर्व में इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-738A/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PAWAN KUMAR MANDAL BHR/BAS/3406	श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-738A/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
